

मिलिटरी प्रशिक्षण, पद्धति संबंधित विषय किन पोर्रो एस.जेड.सी. प्रस्ताव

नवम्बर 2011

(पीएलजीए सदस्य एवना)

* मिलिटरी कैम्पकुना दादा लोर संगे दीदीस्कून वेण्डे शामिल अत्तास्के दीदीस्कीन अलगे प्राइज़ हियाना।

* मिलिटरी कैम्प ताकानास्के परिस्थिति तुन उड़सी स्पेशल फुड (पल्ली लेक्काटा) हियाना।

* मिलिटरी कैम्प ते पहला दिया अद्रमें आखरी दिया ते झण्डा प्रोटोकल तुन पालन कियाना। नड़मा दिया झण्डा तुन लाल सलाम कियाना जरूरी हिल्ले।

* किरिया कियानास्के मार्चिंग संदर्भ ते तिनाड़ अट्टा पोर्रो तुपाई तासाना इंजी योगा पुस्तक लोपो मंता। दीन किन बदला कीसि दावड़ अट्टा ता पोर्रो तुपाई तासाना इंजी सुधार कियाना।

* सेमी/ऑटो तुपाई किन ओसो पिस्ता तुपाईग किन हमला समय ते सीक्युबी (CQB) अलार्ट पोजिशन ते पोयना। पिस्ता समय बैरल लम्बा मंदाना एस.एल.आर., इंसास, 303, 8m.m., बारा बोर, सिंगल शॉट, तुपाईग ना बैरलकु पोर्रो मंदाना। अद्रमें अट्टा ता पेरके चेप्पा मंदाना। असाल्ट पोजिशनस् ते पोयदाना अय्यो। लम्बा कमी मंदाना ए.के.47, स्टेनगन, लेक्काटा हथियार किन बैरल दोड़ मंदाना।

* पुल अप्स जम्पिंग संगे कियाना अय्यो, नित्तिसी कियाना।

* एमिंग प्रेक्टीस कियानास्के बेसिक पोजिशनस् ते जम्पस संगे कियाना, अद्रमें तुरंत एमिंग उड़ाना। हैस्टी पोजिशनस् किना जम्प कीसि पोजिशनस् पोयना अय्यो।

* वितिक्लाप्स कियानास्के काल किन तेहना अय्यो।

* पी.टी. कियानास्के नडमा ब्रिफिंग समय ते जम्प कीवा लेवा हर्सरन कीसोर मंदाना।

* ग्राउण्ड मारी कियाना मौकात ते ब्रेकाउट कियाना समय लोपो नरकोम कय्यकु पोरो तेहाना, मुल्पेट समय ते तुपाई मुन्ने आहताना।

आई टीम्सकुना मिलिटरी ट्रेनिंग:

(एरिया कमाण्ड, आई टीम्स एवना)

कैम्प ता लक्ष्य: सेकण्डरी बल तोर किन मिलिटरी विषय कारतना

रोज: 25 तिना-30 दिया एवना

विद्यार्थी लोर: रीज़नल, डिविजन आई टीम तोर जिला टीम लेवा जागा ते एरिया आई टीम तिंची चुना कित्तोर किन लोहना।

विषय:- थीरि, प्रेक्टीस

1. टीचिंग मेथाड
2. इनिसट्रक्टर्स नियमस- 1 दिया
3. पी.टी. आर्डर - 2 पूटा
4. फायर एण्ड मूवमेन्ट- 4 दिया
5. सेक्शन, प्लाटून ड्रिल्स 5 दिया
6. मल्टी मीटर, पलास कनेक्शन्स, वायर कनेक्शन्स- 2 दिया
7. बुबीट्रॉप्स - 2 दिया
8. एक्सप्लोज़िव समस्य, सावधानियां अद्रमें परिष्कार- 1 दिया
9. नाईट मूवमेन्ट, नाईट एम्बुश 3 दिया
10. रोड़ किन टेनेल डेवाना 3 दिया
11. स्नाईपर थीरि , प्रेक्टीस 5 दिया (ज्यादा दिया प्रेक्टीस मन्नो)

– नदी, रोड वेण्डाना ड्रिल्स
बेसिक इलेक्ट्रानिक्स

गार्डस कर्तव्य:

1. नेतृत्व तुन बचा कियाना, काम-काज ते मदद हियाना
2. गुप्त रूप तुन बचा कियाना,
3. क्रमशिक्षण तुन चुकवा लेवा पालन कियाना
4. हमेशा धीरा ते अलार्ट ते मंदाना
5. पार्टी तुक, जनता तुक सेवा कियाना, इंदाना बुद्धि मंदाना
6. परत्ताचोन अध्यायन पोर्रो ध्यान हियाना, विकास आयाला कोशिश कियाना।

12. ग्रेनेड प्रेक्टीस, ग्रेनेड सेल ता सावधानियां, घायल अत्तास्के कांजाना पद्धति, मस्केट ड्रिल

13. समीक्षा 1 दिया

– मैन फोर्स ता ट्रेनिंग:

बटालियान किन, कम्पनीस् किन युनिट हिसाब ते हियाना
10–12 दिया

विषय:–

1. बी.एन. ,कम्पनी ड्रिल्स फारमेशन्स
2. बिड़िया एम्बुशकु
3. फायर एण्ड मूवमेन्ट
4. नाईट मूवमेन्ट, नाईट एम्बुश
5. मस्केट ड्रिल रोजउच्चुन वेहना

सेकण्डरी फोर्स:

प्लाटून्स, युनिट्स किन 8– 10 दिया

विषय:

1. सेक्शन प्लाटून, ड्रिल्स सुडला एम्बुशकु
2. फायर एण्ड मूवमेन्ट
3. नाईट मूवमेन्ट एम्बुश

LGS तोर किन 8 दिया:–

दलम तोर ड्रिल्स संगेने पोर्रो रासता 2–3 नम्बर तव विषय किन वेहाना।

बेस फोर्स ता शुरु ता कैम्प ,

विद्यार्थीलारुः – 30 जन
रोज़: 10 दिया

1. बेसिक पोजिशन्स हैस्टी पोजिशन्स 1 दिया
2. बुबीट्रॉप्स (क्लेमोर, माईन्स, पेट्रोल बम्ब, नापाम बम्ब, इद्रमतव)
3. वायर फ्लास कनेक्शन्स – 3 दिया
4. रून्गड संगे कल्क एसाना
5. विल्लू काड़ी संगे जेक तिंची वाटना
6. घायल अत्तोर किन कांजाना पद्धति – 3 दिया
7. अनार्मड कम्बट ड्रिल्स – 3 दिया

बेस फोर्स ता दूसरी कैम्प:

सेक्शन्स, प्लाटून्स, युनिट एवना

- रोज़: 10 दिया
1. सेक्शन्स, प्लाटून ड्रिल, सुडला साईज़ ता एम्बुश – 5 दिया
 2. नाईट मूवमेन्ट नाईट एम्बुश – 2 दिया
 3. फायर एण्ड मूवमेन्ट – 2 दिया
 4. सेल्स ग्रेनेड्स सावधानियां – 1 दिया

बेस फोर्स किन राजनीतिक विषय:

1. मिलिशिया जिम्मेदारी – 1 घण्टा
2. मिलिशिया ता भूमिका – 2 घण्टा
3. दूसरा-दूसरा देशम ता लड़ाई ता मिलिशिया ता भूमिका 6 घण्टा
4. भारत लड़ाई ता रणनीतिक&कार्यनीति,

राजनीति विषयकु:

सामाजिक विकास क्रम
युद्धकु (बुर्जआ क्रांति)
लडाई तुक जरूरत अत्ता मूण्ड जादुई हथियार ता विवरण,
लडाई लोपा नेतृत्व ता भूमिका
शहीर ते गेड़ा (जंगल) ते नेतृत्व ता पोरो केंद्रीकरण नुक्साकु दुश्मन ता ष
गोका बाजी दावपेंच, मना जॉच कियाना लोपा कमजोरी,
झूठा सुधार कार्यक्रम
इनफारमर नेटवर्क
जनवादी केंद्रीय बारे ते
जनता ना सांस्कृति तुन मान हियाना-कम्युनिस्ट सांस्कृति ता बारे ते,

मिलिटरी विषयकु:

सी.4 आई (C.4.I) ता बारे ते, मुख्य रूप ते इंटलिजेन्स ता बारे ते
वेहाना।
अरेस्ट अत्तास्के बेले मंदाना विवरण ते वेहाना
किचन ते मंदानांके, मीटिंग, हाल, डेरा पोरो हमला, दायानास्के हमला
सावधानियां हमला अतेके प्रतिरोध कियाना ड्रिल्स,
एर मियाना, डोडिक समय एताना सावधानियां
बाहर तोर संगे नेतृत्व कामरेड्स कलियानास्के एताना जरगतेके प्रतिरोध
कियाना ड्रिल्स
कोवर्ट घटना जरगतेके (विषय प्रयोग, तुपाई संगे काउण्टर पद्धति ते
प्रतिरोध कियाना ड्रिल्स
नेतृत्व कामरेड्स ना हेरे ग्रेनेड अरतेके कियाना कार्रवाई

एटी/आर्टी तोरा सेलाबस

दिया:- 10-12 दिया

विद्यार्थी लोरु - 30 जन

1. पी.टी.
2. स्पीड मूवमेन्टस
3. अन आर्मड टेकनिकस
4. बड़गा, कसेर तुन उपयोग कियाना
5. पिस्तोल आटो तुपाईग
6. ग्रेनेड थ्रोईग/लाबिंग
7. ड्रिल्स, (एम्बुश,कार्रवाई)
8. टनाल्स

क्लास:

1. पी.टी.
2. अनार्मड टेकनिकस
3. शहीर ना बारे ते
4. वी.आई.पी. सेक्युरिटी
5. इंटलिजेन्स
6. टीम्स काम-काज ता भूमिका
7. इलेक्ट्रानिकस कम्युनिकेशन (सेट्स, मोबाईल्स फोन्स)
8. एम्बुशकु प्रत्येक कार्रवाई

गार्डस किन ट्रेनिंग:

विद्यार्थी लोरु - 30 जन

दिया:- 5 दिया

पूना रिक्लुट आयानोर किन राजनीतिक मिलिटरी ट्रेनिंग,

विद्यार्थी लोर: 30 जन

राजनीतिक विषयकु:

1. दर्शन शास्त्र - 6 घण्टा
2. इतिहास भौतिकवाद - 4 घण्टा
3. शास्त्रीय सोशलज्म - 6 घण्टा
4. भारत लड़ाई ता रणनीति&कार्यनीति - 1 दिया
5. राजनीति लाईन, मिलिटरी लाईन, - दिया
6. पीएलजीए घोषण पत्र - 3 घण्टा
7. पीएलजीए कार्यक्रम ता नियम- 4 घण्टा
8. स्टाडिंग आर्डस (माओ 3+8 विषय) - 3 घण्टा
9. कम्युनिस्ट संस्कृति- 4 घण्टा
10. गेरिल्ला युद्ध ओसो मोबाईल युद्ध 1 दिया
11. महिला परस्फेक्टीव - 1 दिया

- मिलिटरी विषय:

1. पी.टी. ओसो रक-रकमता अब्सिट्रकिल्स,
2. क्राल्स-मूवस
3. बेसिक हैस्टी पोजिशन्स CQB अलार्ट, फायरिंग पोजिशन,
4. हथियार ता उपयोग बेले कियाना
5. बट बयनेट प्रेक्टीस
6. माईन युद्ध तंत्र (माईन्स, बुबी ट्रॉप्स क्लेमोर)
7. फ्लास वायर कनेक्शन्स

8. ग्रेनेडस सेल्स किना सावधानियां,
9. ग्रेनेड थ्रोईंग लाबिंग
10. रक-रकमता टेकनिक्स
11. घायल अत्तेके कांजाना पद्धति
12. एक्सप्लोजिव (OD , ED) , बलित्ति कार्डक्स वायर इंसुंताविना बारे ते
13. सेक्शन, प्लाटून, फंगक्षनिंग फारमेशन
14. नाईट मूवमेन्ट, नाईट एम्बुश
15. एम्बुशकु
16. फायर एण्ड मूवमेन्ट
17. मार्क्स मैन्चिप प्राथमिक विषयकु

प्रत्येक कैम्पकु:

दिया: — 15 दिया
संख्या: — 30 जन

महिला मिलिटरी कैम्प ता मुन्नेटा राउण्ड:

राजनीतिक निर्माण विषयकु:

1. डी.के. महिला संघर्ष ता इतिहास
2. एल.टी.टी.ई. महिला सैनिक इतिहास
3. दीर्घकालीन जन युद्ध
4. डी.के. पी.ओ.आर. (2006) ता मिलिटरी पार्ट
5. पीएलजीए कर्तव्य
6. ए.सी., पीएल हेण्ड बुक
7. केंद्रीकृत लोकशाही
8. समावेश ता पद्धति

मिलिटरी विषयकु:

1. बेसिक विषयकु (पी.टी. बेसिक, हैस्टी पोजिशन्स अब्सिड्रकिल्स)
2. सेक्शन, प्लाटून ड्रिल्स
3. फायर एण्ड मूवमेन्ट
4. नाईट मूवमेन्ट
5. मस्केट ड्रिल्स
6. अन-आर्मड कम्बट ड्रिल्स

दूसरी (पेरकेटा) राउण्ड महिला मिलिटरी कैम्प

विद्यार्थी लोरु: — 30 जन
दिया: — 16 दिया

1. महिला प्रेस्पेटीव और नगजलबारी श्रीकाखुलम लड़ाई लोपा महिला ना भूमिका— 3 दिया
2. महिला अवस्था पोरो परिष्कार— 1 दिया
3. कम्युनिकेशन ता मुन्ने (प्राथमिक) विषयक — 3 दिया (सेट वेहाना, मल्टी मीटर, फ्लास, वायर कनेक्शन)
4. स्नाईपर प्रेक्टीस — 7 दिया
5. बुबी ट्रॉप्स — 2 दिया

स्नाईपर ट्रेनिंग कैम्प:

दिया: — 15 दिया
विद्यार्थी लोरु: — 25 जन

ग्रेनेडियार्स+फेंसिंग ब्रेकिंग ट्रेनिंग कैम्प:

दिया:— 11 दिया
विद्यार्थी लोरु:— 20 जन